



भिन्नों का जोड़ (समान भाजक)

नाम: _____

दिनांक: _____ स्कोर: _____

$$\frac{3}{8} + \frac{6}{8} =$$

$$1\frac{2}{4} + \frac{6}{4} =$$

$$\frac{1}{9} + \frac{6}{9} =$$

$$\frac{6}{9} + \frac{6}{9} =$$

$$1\frac{1}{6} + \frac{5}{6} =$$

$$\frac{7}{2} + \frac{7}{2} =$$

$$\frac{1}{8} + \frac{6}{8} =$$

$$1\frac{1}{5} + \frac{6}{5} =$$

$$3\frac{1}{2} + \frac{3}{2} =$$

$$\frac{1}{5} + \frac{3}{5} =$$



भिन्नों का जोड़ (समान भाजक)

नाम: _____

दिनांक: _____ स्कोर: _____

$$\frac{3}{8} + \frac{6}{8} = \frac{9}{8} = 1\frac{1}{8}$$

$$1\frac{2}{4} + \frac{6}{4} = 3$$

$$\frac{1}{9} + \frac{6}{9} = \frac{7}{9}$$

$$\frac{6}{9} + \frac{6}{9} = \frac{4}{3} = 1\frac{1}{3}$$

$$1\frac{1}{6} + \frac{5}{6} = 2$$

$$\frac{7}{2} + \frac{7}{2} = 7$$

$$\frac{1}{8} + \frac{6}{8} = \frac{7}{8}$$

$$1\frac{1}{5} + \frac{6}{5} = \frac{12}{5} = 2\frac{2}{5}$$

$$3\frac{1}{2} + \frac{3}{2} = 5$$

$$\frac{1}{5} + \frac{3}{5} = \frac{4}{5}$$